

हेमकुंड साहबि रोपवे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के एक अधिकारी ने बताया कि हेमकुंड साहबि तक रोपवे का भू सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के साथ ही रोपवे की डजाइन का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

प्रमुख बंदि

- हेमकुंड साहबि की तीरथयात्रा वर्तमान में बेहद कठनि और तकलीफदेय है, क्योंकि तीरथयात्री गोवदिघाट से हेमकुंड साहबि तक 19 कमी. की पैदल दूरी तयकर पहुँचते हैं। ऐसे में रोपवे के निर्माण से हेमकुंड साहबि तक की यात्रा अत्यधिक सुगम हो जाएगी।
- इसी संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा हेमकुंड साहबि तक की यात्रा को सुवधिजनक बनाने के उद्देश्य से 764 करोड़ रुपए की लागत से गोवदिघाट से हेमकुंड साहबि तक 12.6 कमी. तक रोपवे का निर्माण किया जाएगा।
- हेमकुंड साहबि रोपवे के निर्माण से फूलों की घाटी तक पहुँच भी आसान हो जाएगी, क्योंकि हेमकुंड साहबि और फूलों की घाटी तक जाने के लिये गोवदिघाट से घांघरिया (13 कमी.) तक एक ही ट्रैक है। घांघरिया से एक रास्ता हेमकुंड साहबि और दूसरा रास्ता फूलों की घाटी के लिये निकलता है।
- उल्लेखनीय है कि हेमकुंड साहबि चमोली जिला, उत्तराखंड में स्थिति सखिों का एक प्रसदिध तीरथ स्थान है। यहाँ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहबि सुशोभति है। इस स्थान का उल्लेख गुरु गोबदि सहि द्वारा रचति दसम ग्रंथ में आता है।